



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 2007/चैत्र 12, 1929

No. 67]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2007/CHAITRA 12, 1929

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 29 मार्च, 2007

सं. टीएएमपी/33/2004-वीएसएल.-महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा, संलग्न आदेशानुसार, विशाखापट्टणम पत्तन न्यास में बर्थ संख्या ईक्यू-8 और ईक्यू-9 पर अपने प्रचालन के लिए बैक्वाग सीपोर्ट लिमिटेड के वर्तमान दरमान की वैधता को विस्तार प्रदान करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/33/2004-वीएसएल

आदेश

(मार्च 2007 के 28वें दिन पारित)

यह प्रकरण विशाखापट्टणम पत्तन न्यास में बर्थ संख्या ईक्यू-8 और ईक्यू-9 पर अपने प्रचालन के लिए बैक्वाग सीपोर्ट लिमिटेड के वर्तमान दरमान की वैधता के विस्तार से सम्बन्धित है।

2. वीएसएल के प्रारंभिक दरमान (एसओआर) को पिछली बार इस प्राधिकरण के आदेश सं. टीएएमपी/33/2004-वीएसएल दिनांक 15 मार्च, 2005 द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेश दरमान सहित, राजपत्र सं. 40 द्वारा, दिनांक 28 मार्च, 2005 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अनुमोदित दरमान की वैधता को उसके कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि से लेकर दो वर्ष के लिए, निर्धारित किया गया था। तदनुसार, वीएसएल के वर्तमान दरमान की वैधता, अप्रैल, 2007 माह में समाप्त हो जायेगी।

3. वीएसएल ने अपने दरमान के संशोधन के लिए दिनांक 1 फरवरी, 2007 को एक प्रस्ताव दाखिल किया है। प्रस्ताव को एक प्रशुल्क प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया गया और प्राथिक परामर्श प्रक्रिया को आरंभ कर दिया गया है।

4. चूंकि, अपने दरमान में संशोधन हेतु, वीएसएल से प्राप्त प्रस्ताव अभी तक परामर्श अवस्था में ही है, और प्रस्ताव की संवीकृति तथा विश्लेषण के लिए कुछ अधिक समय लगेगा, यह प्राधिकरण वीएसएल के वर्तमान दरमान की वैधता को, उसकी समाप्ति तिथि से 31 जुलाई, 2007 तक अथवा वीएसएल द्वारा दाखिल किये गये प्रस्ताव का अंतिम निपटारा-इनमें से जो भी पहले हो, तक विस्तार प्रदान करता है।

अ. ल. बागिरवाल, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2007/असा.]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

## NOTIFICATION

Mumbai, the 29th March, 2007

No. TAMP/33/2004-VSL.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Vizag Seaport Limited for its operation at the berth numbers EQ-8 and EQ-9 at the Visakhapatnam Port Trust as in the Order appended hereto.

## SCHEDULE

Case No. TAMP/33/2004-VSL

## ORDER

(Passed on this 28th day of March, 2007)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Vizag Seaport Limited (VSL) for its operation at the berth numbers EQ-8 and EQ-9 at the Visakhapatnam Port Trust (VPT).

2. The initial Scale of Rates (SOR) of the VSL was last approved by this Authority *vide* Order No. TAMP/33/2004-VSL dated 15 March, 2005. The Order alongwith the SOR was published in the Gazette of India on 28th March, 2005 *vide* Gazette No. 40. The validity of the approved SOR was prescribed for 2 years from the effective date of its implementation. Accordingly, the validity of the existing SOR of the VSL will expire in the month of April, 2007.

3. The VSL has filed a proposal for revision of its SOR on 1 February, 2007. The proposal is registered as a 'tariff case' and the usual consultation process has been initiated.

4. Since the proposal of the VSL for revision of its SOR is still in the consultative stage, and scrutiny and analysis of the proposal will involve some more time, this authority extends the validity of the existing Scale of Rates of the VSL from the date of its expiry till 31 July, 2007 or till final disposal of the proposal filed by VSL, whichever is earlier.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT III/IV/143/2007/Exty.]